

हरिकथामृथसार
अनुक्रमणिका तारतम्य संधि

हरिकथामृथसार गुरुगळ करुणधिम्धापनिथु पेळुवे
परम भगवध्भक्थरिधनाधरधि केळुवुधु

संधि सूचने:

मानुषोत्तमविडिदु संकरु
षणन परियंतरदि पेळिद
अनुक्रमणिकेय पद्यवनु केळुवुदु सज्जनरु

श्रीमदाचायर मतानुग
धीमतांवरंघ्नि कमलके
सोमपानाहरिगे तात्विक देवतागणके
हैमवति षण्महिषियर पद
व्योमकेशगे वाणि वायु सु
तामरसभव लकुमि नारायणरिगानमिपे २७-०१

श्रीमतांवर श्रीपते स
त्कामितप्रद स्३०य त्रिककु
द्धाम त्रिचतुष्पाद पावनचरित चावांग
गोमतिप्रिय गौण गुरुतम
सामगायनलोल सव
स्वामि ममकुलदैव संतैसुवुदु सज्जनर २७-०२

राम राअस कुलभयंकर
सामजेंद्रप्रिय मनोवा
चामगोचर चित्सुखप्रद चारुतर चरित
भूम भू स्वगापवगव
कामधेनु सुकल्पतरु चिं

तामणियु एंदेनिप निजभक्तरिगे सवत्र २७-०३

स्वणवण स्वतंत्र सवग
कणहीन सुशय्य शाश्वत
वण चतुराश्रमविवजित चारुतर स्वरत
अणसंप्रतिपाद्य वायु सु
वणवरहन प्रतिम वट
पणशयनाश्रयतम सच्चरित गुणभरित २७-०४

अगणित सुगुणधाम निश्चल
स्वगतभेदविशून्य शाश्वत
जगदि जीवात्यंतभिन्नापन्नपरिपाल
त्रिगुणवजित त्रिभुवनेश्वर
हगलिरुळ स्मरिसुतलिहर बि
ट्टगल श्रीजगन्नथविट्टल विश्वव्यापकनु २७-०५